

No. of Printed Pages : 12

Roll No.

SYNOPSIS OF INVESTIGATION AND FIELD WORK
3K-BSN-2A

May/June 2015

APPLIED MATHEMATICS-II

Time Allowed : 3 Hours Max. Marks : 100

- Note :** 1. 'Part-A' may be attempted in first 6 pages of Answer-sheet.
2. 'Part-B' in rest of the sheets of Answer-sheet.
3. The question paper consists of two parts, namely, Part-A & Part-B.
4. A candidate has to attempt both parts.
5. Part-A consists of two questions and Part-B consists of 5 questions.
6. Answer may be given in Hindi or English language.

[Part - A]

Answer any 10 questions. $2 \times 10 = 20$

1. (i) Evaluate :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^5 - 1}{x - 1}$$

(ii)

If

$$y = x^3 + 3 \cos x + e^x + \log 5x + 1,$$

$$\text{find } \frac{dy}{dx}$$

3K-BSN-2A

(2)

1600

3K-BSN-2A

(3)

1600

- (iii) Find the slope of the tangent to the curve
 $y^2 = ax^3$
 at the point (2, 3)

(iv) Evaluate :

$$\int \frac{1}{x^2 + 9} dx$$

(v) Find the value of

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$$

(vi) Write conjugate of

$$\frac{(2+i3)(1+i)}{(1-i)}$$

in the form $a + ib$

- (vii) Draw the phasor for
 $-20\cos(\omega t + 30^\circ)$

(viii) For

$$f(x, y) = ax^2 + 2hxy + by^2,$$

(a, h, b are constants),

$$\text{find } \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

- (ix) Find the degree and order of the differentiate equation

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + y = \sin x$$

(x) The admittance and current of a circuit are given by the complex numbers $7+5j$ and $17-6j$ respectively. Find the voltage of the circuit.

- (xi) Find the mean value of the function
 $y = 2\sqrt{x}$ over the range $0 \leq x \leq 4$.

(xii) Evaluate :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan 3x}$$

- (xiii) Write the C.F. for the differential equation

$$(D^2 - 4)y = x \sin x$$

(xiv) Write

$$\frac{2+6\sqrt{3}i}{5+\sqrt{3}i}$$

in polar form.

2. Answer any 5 parts. 5×4 = 20

- (i) Find
- $$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x}$$
- (ii) Differentiate $\sin 3x$ from first principles.
- (iii) If $x = a(t + \sin t)$, and

3K-BSN-2A

(4)

1600

3K-BSN-2A

(5)

1600

$$y = a(1 - \cos t),$$

(b) Find the maximum and minimum values
of the function

$$\text{find } \frac{dy}{dx} \text{ at } t = \frac{\pi}{2}.$$

(iv) Evaluate :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x \, dx}{(1 + \sin x)(2 + \sin x)}$$

(v) Solve :

$$(1 + y^2) \, dx = (\tan^{-1} y - x) \, dy$$

(vi) If

$$(x^2 y - 2) + i(x + 2xy - 5) = 0,$$

find x and y.

(vii) If $z = f(x, y)$ is a homogenous function

in x & y of degree n, then prove that

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = nz$$

(viii) Solve :

$$(4D^2 + 4D - 3)y = e^{2x}$$

[Part - B]

Answer any 3 questions.

3×20 = 60

3.

(a) If

$$y = (\sin x)^{\cos x} + (\cos x)^{\sin x},$$

$$\text{find } \frac{dy}{dx}$$

6. (a)

$$u + iv = \sin^{-1}(x + iy)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x - 3}} \, dx$$

5. (a) The charge q on a capacitor is given by
the differential equation

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 8 \frac{dq}{dt} + 25q = 25 \sin 3t.$$

Find the expression for the charge, if
initially both the charge and the current
is zero.

(b) Solve :

$$\frac{dy}{dx} = e^{x-y} + x^2 e^{-y}$$

if $y = 1$ at $x = 1$

If

$$u + iv = \sin^{-1}(x + iy)$$

prove that

$$\frac{x^2}{\cosh^2 u} + \frac{y^2}{\sinh^2 u} = 1$$

(b) Given

$$u = \sin \left(\frac{x}{y} \right),$$

$$x = e^t \text{ & } y = t^2,$$

$$\text{find } \frac{du}{dt}.$$

7. (a) The impedances $Z_1 = 100\angle 20^\circ \Omega$ and

$Z_2 = 50\angle -50^\circ \Omega$ are connected in

series. Find the total impedance in polar form.

$$(b) \quad \text{If } u = \tan^{-1} \frac{x^3 + y^3}{x + y},$$

prove that

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = \sin 2u$$

ज्ञात करो।

$$(iv) \quad \int \frac{1}{x^2 + 9} dx$$

का मान ज्ञात करो।

$$(v) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$$

का मान ज्ञात करो।

नोट- 1. 'भाग-अ' के उत्तर, उत्तर-प्रूफिका के पहले 6 पृष्ठों पर ही

दें।

2. 'भाग-ब' के उत्तर, उत्तर-प्रूफिका के बाकी पृष्ठों पर ही
3. परिक्षार्थी को दोनों ही भाग करने हैं।
4. इस प्रश्न-पत्र के 2 भाग हैं, भाग (अ) एवं भाग (ब)।
5. भाग (अ) में 2 प्रश्न एवं भाग (ब) में 5 प्रश्न हैं।

(भाग-अ)

किन्हीं दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

2×10 = 20

$$1. \quad (i) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^5 - 1}{x - 1}$$

का मान ज्ञात करो।

(ii) यदि

$$y = x^3 + 3 \cos x + e^x + \log 5x + 1,$$

$$\frac{dy}{dx} \text{ ज्ञात करो।}$$

(iii) बिन्दु (2, 3) पर वक्र $y^2 = ax^3$ स्पर्श रेखा का ढाल

ज्ञात करो।

$$(iv) \quad \int \frac{1}{x^2 + 9} dx$$

का मान ज्ञात करो।

$$(v) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$$

का मान ज्ञात करो।

(vi) $a + ib$ रूप में

$$\frac{(2+i3)(1+i)}{(1-i)}$$

(vii) का संयुग्मी लिखो ।

का संयुग्मी लिखो ।

(viii) $-20\cos(\omega t + 30^\circ)$

के लिये फेजर खींचो ।

(ix) $f(x, y) = ax^2 + 2hxy + by^2$,

(a, h, b अचर हैं),

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ ज्ञात करो ।

$$(ix) \frac{d^2y}{dx^2} + 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y = \sin x$$

अवकल समीकरण के लिये कोटि और अनुक्रम ज्ञात

करो ।

(x) एक परिपथ की प्रवेश्यता और धारा क्रमशः सामिक्षा

संख्याओं $7+5j$ और $17-6j$ द्वारा दिये गये हैं।

परिपथ का चॉल्टेज ज्ञात करो ।

(xi) $0 \leq x \leq 4$ रेंज के आर-यार फलन $y = 2\sqrt{x}$ का

माध्य मान ज्ञात करो ।

$$(xii) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan 3x}$$

का मान ज्ञात करो ।

$$(xiii) (D^2 - 4)y = x \sin x$$

अवकल समीकरण के लिये C.F. लिखो ।

$$(xiv) \frac{2+6\sqrt{3}i}{5+\sqrt{3}i}$$

को ध्रुवीय रूप में लिखो ।

किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर लिखो ।

(i) ज्ञात करो :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x}$$

(ii) फर्स्ट प्रिंसिपल से $\sin 3x$ का अवकलन कीजिये ।

(iii) यदि

$$x = a(t + \sin t) \text{ और}$$

$$y = a(1 - \cos t)$$

$$(iv) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x \, dx}{(1 + \sin x)(2 + \sin x)}$$

का मान ज्ञात करो ।

(v) हल करो :

$$(1 + y^2) dx = (\tan^{-1} y - x) dy$$

(vi) यदि

$$(x^2y - 2) + i(x + 2xy - 5) = 0,$$

x और y ज्ञात करो ।

(vii) n कोटि का x और y में यदि $z = f(x, y)$ एक

समांगीय फलन है, तब सिद्ध करो

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = nz$$

(viii) हल करो :

$$(4D^2 + 4D - 3)y = e^{2x}$$

[भाग-ब]

किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

$$3 \times 20 = 60$$

3.

(a) यदि

$$y = (\sin x)^{\cos x} + (\cos x)^{\sin x},$$

$$\text{ज्ञात करो } \frac{dy}{dx}$$

(b) फलन

$$y = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 6$$

के अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करो ।

4. (a)

x-अक्ष पर युमान परवलय $y^2 = 4x$, x-अक्ष और कोटि अंश $x = 3$ से घिरे क्षेत्र को x-अक्ष पर युमाने से प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करो ।

$$(b) \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x - 3}} dx$$

का मान ज्ञात करो ।

5. (a) अवकल समीकरण

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 8 \frac{dq}{dt} + 25q = 25 \sin 3t.$$

द्वारा केविस्टर पर आवेश q दिया गया है । आवेश का व्यंजक ज्ञात करो । यदि आवेश और धारा दोनों प्रारम्भ में शून्य हैं ।

(b) यदि $x = 1$ एवं $y = 1$,

हल करो

$$\frac{dy}{dx} = e^{x-y} + x^2 e^{-y}$$

यदि

$$u + iv = \sin^{-1}(x + iy)$$

सिद्ध करो

$$\frac{x^2}{\cosh^2 u} + \frac{y^2}{\sinh^2 u} = 1$$

(b) दिया है

$$u = \sin\left(\frac{x}{y}\right), \quad \text{हो } x = e^t, \quad \text{हो } y = t^2$$

$$x = e^t \text{ और } y = t^2,$$

$$\frac{du}{dt} \text{ ज्ञात करो}$$

7. (a) दो अवबाधिकारे $Z_1 = 100\angle 20^\circ \Omega$ और

$Z_2 = 50\angle -50^\circ \Omega$ को शुंखला में जोड़ा गया है।
इन्हीं रूप में कुल अवबाधिता ज्ञात करो।

$$\text{यदि } u = \tan^{-1} \frac{x^3 + y^3}{x + y},$$

सिद्ध करो

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = \sin 2u$$